

विधायक असीम गोयल के खिलाफ पत्रकारों में रोष - हो सकता है विधायक का सामूहिक Boycott

By : INVC Team Published On : 5 Apr, 2016 09:26 AM IST



आई एन वी सी न्यूज़ रोहतक, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के प्रदेशाध्यक्ष संजय राठी ने अम्बाला के विधायक असीम गोयल द्वारा वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मसीह गुलाटी की पिटाई करने की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि प्रदीप गुलाटी की गिनती अम्बाला के गणमान्य व्यक्तियों में की जाती है। उन्होंने अपना सारा जीवन पत्रकारिता एवं समाजसेवा को समर्पित कर रखा है। लेकिन गत दिनों सत्ता के मद में चूर विधायक असीम गोयल ने मामूली सी बात पर तैश में आकर प्रदीप मसीह गुलाटी के साथ मारपीट की।

एचयूजे अध्यक्ष संजय राठी ने कहा कि विधायक असीम गोयल की इस कृत्य से प्रदीप गुलाटी सकते में हैं। उनके साथ हुई इस घटना से पूरा मीडिया समाज स्तब्ध है। दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मसीह गुलाटी गहन अवसाद की स्थिति में हैं। पूरे प्रदेश में विधायक असीम गोयल के प्रति पत्रकारों में भारी आक्रोश है। यूनियन के अध्यक्ष संजय राठी ने कहा कि शीघ्र ही इस मामले में उचित कार्यवाही के लिए एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महामहिम कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात कर ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही इस मामले की शिकायत भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, हरियाणा प्रभारी डॉ. अनिल जैन तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को की जायेगी। इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद्, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स तथा मानवाधिकार आयोग को भी मामले में शिकायत की जायेगी।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/विधायक-असीम-गोयल-के-खिलाफ/>